

# 2019 त्रिकाल संहिता

एस्ट्रोसेज द्वारा कुंडली-आधारित भविष्यवाणी



**AstroSage**

World's No. 1 Astrology Portal & App

उज्ज्वल भविष्य के लिए



*Pooja Sharma*



को समर्पित

## "2019 त्रिकाल संहिता" में आप क्या पाएंगे

प्रिय Pooja Sharma

एक बेहतर और अधिक समृद्ध 2019 चुनने के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। हमें आशा है कि "2019 त्रिकाल संहिता" आपके लिए यह साल विशेष बनाने में पूरी तरह सहायक सिद्ध होगी। न केवल यह संहिता आपको विश्वास का सम्बल प्रदान करेगी, बल्कि इसमें आप वर्ष के लिए सटीक भविष्यवाणियाँ और आने वाली समस्याओं के सरल उपाय भी प्राप्त करेंगे।

यह 2019 त्रिकाल संहिता वैदिक ज्योतिष के प्राचीन सिद्धान्तों पर आधारित है। आदिम युग के ऋषियों ने अतिचेतन समाधि की अवस्था में इस विज्ञान को खोज निकाला था जिसके माध्यम से सभी मानवीय दुःखों से पार पाया जा सकता है और अन्तस् में छुपी क्षमताओं को प्रकट किया जा सकता है। उसी वैदिक विज्ञान का उपयोग करके हमने 2019 त्रिकाल संहिता का निर्माण किया है, जिससे आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और वर्ष 2019 में उनका पूरा उपयोग ठीक तरह से कर सकें।

वर्ष में ब्रह्माण्डीय ऊर्जाओं का प्रवाह सतत बदलता रहता है, इसलिए यहाँ आप पाएंगे कि 2019 के विभिन्न भागों में सहायक व कठिन परिस्थितियाँ किस तरह आकार लेंगी। साथ ही आप जानेंगे कि इस साल आपको क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं और किन उपायों के माध्यम से आप समस्याओं से बचकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम आपकी कुण्डली में इस वर्ष बन रहे राजयोग और अन्य विशेष योगों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे।

पूरी 2019 त्रिकाल संहिता का सार देने के लिए हमने एक विशिष्ट सूचकांक भी तैयार किया है, जो आपको साल की शक्ति बताएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो साल की जितनी अधिक शक्ति होगी, आप उतनी ही सरलता से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे और इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे।

हम मानते हैं कि आप खास हैं और इसीलिए 2019 त्रिकाल संहिता में हम आपको ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण, सटीक भविष्यवाणियाँ और आसान उपाय देंगे, जो खास तौर पर आपके लिए ही तैयार किए गए हैं। हम आशा करते हैं कि इस संहिता की सहायता से 2019 में आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, संतोष, प्रसन्नता और मानसिक शान्ति पाएंगे। हमारे साथ इस विशेष यात्रा में आपका स्वागत है, जो वर्ष 2019 में निश्चय ही हर्ष और समृद्धि की यात्रा सिद्ध होगी।

साभार,

*पुनीत पाण्डे*

**पुनीत पाण्डे**

संस्थापक, एस्ट्रोसेज.कॉम

## आपका जन्म विवरण

- दिनांक: 23 : 8 : 1978
- समय: 23 : 53 : 18
- जन्म स्थान: Delhi
- टाइम जोन: 5.5
- अक्षांश: 28 : 40 : N
- रेखांश: 77 : 13 : E

## वर्ष 2019 की संक्षिप्त भविष्यवाणी

### आर्थिक जीवन

इस वर्ष आप को आर्थिक मोर्चे पर अधिक प्रयास करने होंगे लेकिन आप बेफिक्र रहे उतना प्रयास आप करेंगे उतना ही आप को धन लाभ होने के योग बनेंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष आप को आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। इस वर्ष आप मनोरंजन तथा अन्य सुख-साधनों पर व्यय करेंगे अतएव आपको धन संबंधी मामलों में संभलकर चलना होगा। व्यापार में लाभ होगा।

### करियर

आप इस वर्ष कठिन परिश्रम करेंगे और उसका प्रतिफल भी आप को पूर्ण रूप से मिलेगा अर्थात् आपके करियर में उन्नति के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों से बनाकर रखें क्योंकि इस वर्ष वो आपकी अत्यधिक सहायता कर सकते हैं। विपरीतलिंगी जातकों के माध्यम से भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी।

### पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन के लिए अच्छे संकेत है। आप प्रसन्नता का आनंद अनुभव करेंगे और अपने इस समय को अपने परिजनों के साथ बाँटेंगे। परिवार में कोई उत्सव का आयोजन भी संभव है। आप अपने परिजनों के साथ कहीं घूमने फिरने अथवा मनोरंजन करने भी जाते रहेंगे। अतः कुल मिलाकर इस समय का पूरा आनंद उठाइए।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी और जिन्हें आप पसंद करते हैं वह आपके जीवन में स्थान बनाएँगे। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा।

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी केवल आपको अपने भोजन पर ध्यान

देना होगा। समय पर खाना खाएँ तथा अच्छा भोजन खाएँ अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।

## 2019 के लिए महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिन्दु

### अनुकूल बिन्दु

- भाग्यांक: 1
- शुभ अंक: 1, 2, 3, 9
- भाग्यशाली दिन: शनि, बुध, शुक
- शुभ ग्रह: शनि, बुध, शुक
- मित्र राशियां: मिथुन, कन्या, कुम्भ
- शुभ लग्न: मकर, मेष, मिथुन, सिंह
- भाग्यशाली धातु: लोहा
- भाग्यशाली रत्न: नीलम

### प्रतिकूल बिन्दु

- दिन: मंगलवार
- करण: शकुनि
- लग्न: कुंभ
- अशुभ अंक: 4, 5, 8
- माह: वैशाख
- नक्षत्र: रोहिणी
- प्रहर: 4
- राशि: सिंह
- तिथि: 4, 9, 14
- योग: गंड
- ग्रह: चंद्र, मंगल, सूर्य

## वर्ष 2019 के लिए विशिष्ट उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपायों के माध्यम से हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अपने साथ भिन्न-भिन्न मौके और कठिनाइयाँ लेकर आता है। यह वर्ष भी इस दृष्टिकोण से खास है। हम यहाँ इस साल के लिए ऐसा उपाय बता रहे हैं जो आपको बाधाओं से बचाने में सहायक होगा और भाग्य में बढ़ोत्तरी करेगा। यह उपाय पूरे वर्ष किया जा सकता है। आपके लिए पूरे वर्ष किया जाने वाला उपाय है:

**इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें :** ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः

## वर्ष 2019 के लिए विशेष

यह वर्ष अपने भीतर कई परिवर्तनों को समेटे हुए हैदृजहाँ कुछ बदलाव सुखद हैं, वहीं कुछ उतने मनोनुकूल नहीं हैं। एक तरफ बहुत-सी उपलब्धियाँ आपके कदम चूमेंगी, तो दूसरी ओर आपको कुछ कसौटियों पर भी कसा जाएगा। ऐसे में हम आपका ध्यान कुछ मूलभूत बातों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से आप इस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं और कठिनाइयों पर लगाम लगा सकते हैं। देखने में भले ही ये बातें सतसैया के दोहों की तरह देखने में छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा और दूरगामी है। आइए, देखते हैं इस साल आपको किन विशेष बातों को याद रखना चाहिए—

### क्या करें

- अपने व्यवसाय में मन लगाकर कार्य करें।
- धन सम्बन्धी लेन देन सोच विचार करके ही करें।

### क्या न करें

- किसी को भी कड़वे वचन न बोलें।
- परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान न करें।

## वर्ष 2019 का विस्तृत विश्लेषण

आपके जीवन को प्रभावित करने वाली सूक्ष्म शक्तियाँ वर्ष भर परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए वर्ष का विस्तृत विश्लेषण जीवन के अलग-अलग पहलुओं में भिन्न-भिन्न परिणामों को दर्शाता है। हम पहले ही संक्षेप में देख चुके हैं कि यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। आइए, अब ऊर्जाओं में आने वाले बदलावों के फलस्वरूप वर्ष के विभिन्न हिस्सों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से देखते हैं

### जनवरी 01, 2019 – फरवरी 01, 2019

#### आर्थिक जीवन

इस समय आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में चुनौतियों के कारण आप मानसिक रूप से भी परेशान दिखाई देंगे। इस दौरान जोखिम उठाने वाली प्रवृत्तियों पर पूरी तरह अंकुश लगाएं अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होने की गुंजाइश है। आपको पैसे उधार लेने की नौबत भी आ सकती है।

#### करियर

इस समय करियर की गाड़ी भी मंद गति से दौड़ेगी। आपकी सृजनात्मक क्षमता का ह्रास होगा, जिससे आपके पास नए विचार नहीं आएंगे। निर्णय लेते समय भी आप थोड़े असहज रह सकते हैं। झूठी आशाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको वस्तु स्थिति से अवगत होना पड़ेगा।

### पारिवारिक जीवन

इस समय संतान की सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर भी गौर करें। मित्र अथवा सहयोगियों से आपका मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन में क्लेश पैदा होने की स्थिति बन रही है। जमीन-जायदाद अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर परिजनों के बीच झगड़ा होने के आसार हैं।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अपने लव पार्टनर को यह अहसास कराएं कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं अन्यथा विवाद होने की स्थिति में आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय रहेगा। जीवनसाथी के द्वारा आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है।

### स्वास्थ्य

इस अवधि में आप शारीरिक रूप से कमजोर रह सकते हैं। आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। इसका विपरीत असर आपके चेहरे पर पड़ेगा। इस समय आपके कंधे झुके हुए रह सकते हैं। काम में आपको थकान का अनुभव होगा और आपकी कार्य क्षमता में कमी होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें।

### इस दौरान याद रखने योग्य बातें

#### क्या करें

- जिसे भी अपना माने उससे अपने मन की बात जरूर साझा करें।
- प्रेम संबंधों में अंतरंगता लाएं।

#### क्या न करें

- किसी के प्रति और रूखा व्यवहार ना करें और उनकी भावनाओं को आदर दे।
- संतान के प्रति अत्यधिक सख्त व्यवहार ना करें।

#### उपाय

- शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सायं काल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- श्री राम भक्त हनुमान की उपासना करें और उन्हें संदूर चढ़ाएं।

फरवरी 01, 2019 – मार्च 25, 2019

### आर्थिक जीवन

द्वादश भाव में स्थित बुध सामान्यतः कष्टकारी रहता है, अतः इस अवधि में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कुछ चंताओं की वजह से आप तनावग्रस्त रह सकते हैं, बेहतर होगा कि ऐसी परिस्थिति में आप धैर्य और संयम के साथ काम लें। आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अचानक धन हानि होने की संभावना है, साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। इस समय में आपका आर्थिक पक्ष भले ही कमजोर हो लेकिन आप संपत्ति अर्जित करेंगे।

### करियर

नौकरी और व्यापार के लिए भी यह समय थोड़ा संभलकर चलने वाला है। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें और ऐसे निवेश कार्यों से बचें जहां जोखिम अधिक हो। ऐसे में शेयर बाजार में पूंजी निवेश सोच-समझकर करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। आपको नौकरी या व्यवसाय में किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और उनकी हर चाल को नाकाम कर देंगे।

### पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए जहां तक हो सके विवादों से बचने की कोशिश करें। इस समय अवधि में आपके भाई-बहन सुखी रहेंगे और आपके प्रति समर्पित रहेंगे।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जीवनसाथी के साथ किसी मुद्दे पर मनमुटाव या विवाद होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में संयम के साथ काम लें और बातचीत से हल निकालें। वहीं दूसरी ओर प्रेम जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले सकती हैं, अतः प्रियतम के विचारों की कद्र करें और उन्हें भरपूर समय दें।

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। इस अवधि में आपकी सेहत में गिरावट हो सकती है। आपको त्वचा और नेत्र संबंधी परेशानी होने की संभावना है। ऐसी स्थिति बिल्कुल लापरवाही ना बरतें और तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें।

### इस दौरान याद रखने योग्य बातें

#### क्या करें

- अपने कानों और सुनने की क्षमता का ध्यान रखें।
- स्वयं के आत्मविश्वास को जगाएं और मानसिक अवसाद से दूर रहे।

#### क्या न करें

- अपनी दैनिक चेतना का प्रयोग दूसरों के हित में करें अहित में नहीं।
- अपने विरोधियों की बातों में आकर स्वयं को कमतर ना आंके।



**उपाय**

- प्रतिदिन गौ ग्रास निकालें।
- अपामार्ग की समिधा से हवन करें।

**मार्च 25, 2019 – अप्रैल 15, 2019**

**आर्थिक जीवन**

इस दौरान आपका व्यापार धंधा अच्छा चलेगा। आमदनी अच्छी होगी परंतु इस समय आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना है। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। यदि आपने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया है तो आपका लोन पास हो जाएगा। हालांकि इस अवधि में आपको धन लाभ के योग हैं।

**करियर**

करियर क्षेत्र में सुधार होगा। व्यापार में विस्तार होने की संभावना है। इस दौरान हर क्षेत्र से आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे। शत्रु आपसे भयभीत रहेगा। अचानक होने वाली यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके ज्यादातर प्रयास सफल होंगे।

**पारिवारिक जीवन**

इस अवधि आप कठोर स्वभाव वाले हो सकते हैं और इस कारण परिजनों से आपके संबंध कटु होंगे। अपने स्वभाव में विनम्रता लाएं। इस समय आपके रिश्तेदारों की ओर से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मुद्दों को छोड़ आप सामाजिक सेवा में रुचि ले सकते हैं।

**वैवाहिक और प्रेम जीवन**

वैवाहिक जीवन में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवनसाथी से विवाद होने की संभावना है। वहीं प्रेम जीवन में भी परिस्थितियाँ विपरीत रह सकती हैं। इस समय जीवनसाथी/प्रियतम के ऊपर गुस्सा न करें, अन्यथा रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं।

**स्वास्थ्य**

इस समय आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यदि आप किसी पुराने रोग से पीड़ित हैं तो आपको उस रोग से छुटकारा मिल सकता है। इस समय अपनी आँखों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपको नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है। इस भाव में केतु की स्थिति आपको रक्तचाप की बीमारी दे सकती है।

**इस दौरान याद रखने योग्य बातें****क्या करें**

- वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

- अपने मामा मौसी से अच्छे संबंध बनाकर रखें।

### क्या न करें

- इस समय में कोई भी ऑपरेशन ना करें।
- हथियारों और बुरी संगति से दूर रहे।

### उपाय

- केतु बीज मंत्र का जाप करें।
- केतु औषधि स्नान करें।

## अप्रैल 15, 2019 – जून 15, 2019

### आर्थिक जीवन

पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में समय समय पर कुछ उतार चढ़ाव भी सम्भव है। मित्र और सहयोगी आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। यात्राएं शुभ फल देंगी। आप परिस्थितियों का बड़ी चतुरता से सामना करेंगे। आय में वृद्धि होनी चाहिए। संदेहास्पद साधनों या गलत तरीकों से भी आपके पास पैसा आयेगा।

### करियर

आपकी संवाद शैली प्रभावी होगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप अपने बुद्धि विवेक के कारण उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। अपने शत्रुओं पर आप आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी।

### पारिवारिक जीवन

परिजनों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन होने की संभावना बन रही है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों का साथ आपको रुचिकर लगेगा। भौतिक साजो-सामान के लिये आप पैसा खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा। आपका परिवार बड़ा और खुशहाल होगा।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

प्रेम-प्रसंग के मामलों में अच्छे क्षण आएंगे। प्रेमी के साथ आप अच्छे पल व्यतीत करेंगे। वहीं जो विवाहित हैं उनके जीवन साथी को कुछ मानसिक तनाव रह सकता है। इसका असर आपके वैवाहिक रिश्ते पर भी पड़ सकता है।

### स्वास्थ्य

इस अवधि में आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, अतः इस समय में मन को स्थिर और शांत रखने के लिए व्यायाम और योग का सहारा लें। किसी भी तरह की सेहत संबंधी परेशानी होने पर डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

## इस दौरान याद रखने योग्य बातें

### क्या करें

- परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करें।
- छोटी कन्याओं को कोई उपहार दें।

### क्या न करें

- परिवार की महिला का अनादर न करें।
- धन संचय पर ध्यान केंद्रित करें।

### उपाय

- माँ दुर्गा की प्रतिमा पर लाल पुष्प चढ़ाएं।
- परफ्यूम का प्रयोग करें।

## जून 15, 2019 – जुलाई 03, 2019

### आर्थिक जीवन

इस समय अवधि में धन संबंधी मामलों में अच्छे फल मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में धन लाभ के लिए आपकी ओर से किये जाने वाले प्रयास सफल होंगे और यदि आप काफी समय से प्रयास करते आ रहे हैं, तो इस अवधि में आपको अपने परिश्रम का फल धन लाभ के रूप में मिलेगा।

### करियर

बिजनेस और जॉब में आप पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। याद रखें आपकी इस ईमानदारी का फल आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा धैर्य रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें। काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं आपके लिए सफलता के द्वार खोलेंगी। इस दौरान आपकी मुलाकात प्रतिष्ठित लोगों से होगी, चूंकि मेलजोल बढ़ने से संबंध बनते हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए नये लोगों के साथ होने वाली इन मुलाकातों से आपको करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

### पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा, हालांकि परिवार में शांति और सद्भाव बना रहे इसके लिए थोड़ा धैर्य से काम लें। इस अवधि में पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनकी सलाह से आपको लाभ होगा। पिता हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे।

## वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखाई देगा। साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। हालांकि छोटी-मोटी तकरार भी देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर की सेहत का खयाल करें।

## स्वास्थ्य

इस अवधि में छोटे-मोटे स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं लेकिन यह समस्याएं कुछ समय तक ही रहेंगी। इसके अलावा परिजनों की खराब सेहत भी आपकी चंता का कारण बन सकती है। ऐसे में अपनी और परिजनों की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें।

## इस दौरान याद रखने योग्य बातें

### क्या करें

- सभी के प्रति समभाव रखें।
- परोपकार की भावना विकसित करें।

### क्या न करें

- अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करें।
- स्वार्थपरता की भावना से दूर रहें।

## उपाय

- प्रत्येक रविवार तांबे की कोई वस्तु दान करें।
- रात को सोते समय सिरहाने तांबे के पात्र में जल रखकर प्रातः काल उसे किसी लाल पुष्प वाले पौधे में चढ़ाएं।

## जुलाई 03, 2019 – अगस्त 02, 2019

## आर्थिक जीवन

आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी की तुलना में खर्च अचानक से बढ़ने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। आपका धन कुछ अवांछित कार्यों में भी व्यय हो सकता है, इसलिए इस अवधि में धन से जुड़े मामलों में समझदारी और संयम के साथ काम लेना बेहतर होगा।

## करियर

चंद्रमा का षष्ठम भाव में स्थित होना सामान्यतः शुभ नहीं माना गया है, अतः इस अवधि में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके फलस्वरूप नौकरी और व्यवसाय में उम्मीद के अनुसार सफलता

नहीं मिल पाएगी। आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा। विरोधी पक्ष पर हावी होने की कोशिश करेगा। इस दौरान कुछ लोग आपकी छवि को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। बेहतर होगा कि, कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधिकारियों के साथ किसी भी विवाद से बचें और उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। चंद्रमा का षष्ठम भाव में स्थित होना आपकी नौकरी में परिवर्तन के संकेत को दर्शाता है। इस समय में जल्दबाजी या हड़बड़ी से काम लेने से बचें वरना एक गलत फैसला आप पर भारी पड़ सकता है।

### पारिवारिक जीवन

चूंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है और इसके षष्ठम भाव में स्थित होने की वजह से आपको अपनी माँ से बेहतर संबंध बनाकर चलना होगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपके बच्चों को अनुकूल परिणाम दे सकती है। इस अवधि में आपके बच्चे उन्नति कर सकते हैं। आपके पिता के लिए भी यह स्थित शुभ परिणाम देगी और उन्हें किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित कराएगी।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

लव लाइफ के लिए अच्छा समय है लेकिन प्रियतम और आपके विचारों में मतभेद से परेशानी हो सकती है। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो जीवनसाथी से भी मतभेद की संभावना है या फिर आप दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि विवाद की स्थिति में संयम के साथ काम लें और बातचीत के जरिये मामले का हल निकालने की कोशिश करें।

### स्वास्थ्य

इस अवधि में आपको आंख या पेट से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस अवधि में आपकी चंता बढ़ा सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है।

### इस दौरान याद रखने योग्य बातें

#### क्या करें

- अपने कर्ज को चुकाने का पूरा प्रयास करें।
- अपने मामा अथवा मौसी से बनाकर रखें।

#### क्या न करें

- किसी से उधार अथवा कर्ज न लें।
- महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्द न बोलें।

#### उपाय

- चाँदी के बर्तनों का प्रयोग करें।
- अपनी माता की यथा संभव सेवा करें।

**अगस्त 02, 2019 – अगस्त 24, 2019**

### आर्थिक जीवन

इस दौरान आपको उच्च लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना रहेगी। आपके खर्चों में कुछ अधिकता हो सकती है, जबकि आमदनी स्थिर रहेगी। हालाँकि किसी विवाद में सफलता मिलने के कारण धन लाभ हो सकता है। बैंको से लोन मिल सकता है। धन का खर्च सोच-समझकर करें। अकारण धन खर्च करने से आपके सामने आर्थिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है।

### करियर

करियर में आपको लाभ मिलेगा और नौकरी में परिस्थितियाँ अनुकूल नजर आएंगी। आप में से कई जातक पैतृक व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी को ज्यादा महत्व देंगे। राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मेहनत के कारण आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अपने शत्रुओं को आप आसानी से पराजित करेंगे।

### पारिवारिक जीवन

वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो, इसमें आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल के प्रभाव के कारण छोटे भाई-बहनों को किसी प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। समाज में पिताजी की प्रतिष्ठा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी और वे एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में उभरेंगे। उन्हें किसी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अपनी सेहत का खयाल रखें।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

यदि आप विवाहित हैं तो संतान की वाणी में कड़वापन नजर आ सकती है। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन में कुछ कमी आ सकती है। प्रियतम अथवा जीवनसाथी से लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। इस समय अपने गुस्से पर काबू रखें और पार्टनर से बहसबाजी करने से बचें। रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं को समझें और बातचीत के माध्यम से अपनी बातों को भी समझाने की कोशिश करें।

### स्वास्थ्य

इस अवधि में आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इस समय कुछ बातों को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जैसे— आपको बुरी संगति से दूरी बनाए रखनी होगी और वाहन चलाते समय भी पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने क्रोध और खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस समय आपको फोड़े फुंसी की शिकायत हो सकती है। आग से भी दूरी बनाएं।

### इस दौरान याद रखने योग्य बातें

#### क्या करें

- गाड़ी बेहद सावधानी से चलाएं।
- सफलता प्राप्ति के लिए धैर्य बनाए रखें।

**क्या न करें**

- अपनी कोई गुप्त योजना किसी से साझा ना करें।
- ज्यादा मसालेदार तथा गरम प्रकृति की वस्तुओं का सेवन ना करें।

**उपाय**

- हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
- अपने घर की छत पर सबसे ऊंचे स्थान पर लाल रंग का झंडा लगाएं।

**अगस्त 24, 2019 – अक्टूबर 12, 2019****आर्थिक जीवन**

दूसरे भाव में गुरु आपकी आय में वृद्धि करेगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने के शुभ संकेत हैं। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में समय समय पर कुछ उतार चढ़ाव भी सम्भव है। मित्र और सहयोगी आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। यात्राएं शुभ फल देंगी।

**करियर**

आपकी संवाद शैली प्रभावी और प्रिय रहेगी। आपकी वाणी में स्नेह का भाव नजर आएगा और लोग आपकी बातों से मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। आप अपने बुद्धि विवेक के कारण उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। अपने शत्रुओं पर आप आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। नई भाषा को सीखने में आप खासी रुचि दिखाएंगे। वहीं अन्याय के प्रति आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अपने करियर में आपको उन्नति करेंगे।

**पारिवारिक जीवन**

अपने परिजनों और दूसरे लोगों की भलाई आपकी प्राथमिकता होगी। यदि इस संबंध आपका धन भी खर्च होता है तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। इस अवधि में आप जन प्रिय होंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। घर में कोई शुभ कार्य अथवा मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। हालांकि यदाकदा परेशानियां भी आ सकती हैं।

**वैवाहिक और प्रेम जीवन**

प्रेम-प्रसंग के मामलों में अच्छे क्षण आएंगे। प्रेमी के साथ आप अच्छे पल व्यतीत करेंगे। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव रह सकता है। इसका असर आपके वैवाहिक रिश्ते पर भी पड़ सकता है इसलिए जीवनसाथी की सेहत का खयाल रखें।

**स्वास्थ्य**

बृहस्पति की यह स्थिति आपको स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा भी दे सकती है। बृहस्पति वसा का कारक होता है

इसलिए आप मोटापे या चर्बी बढ़ने की समस्या से ग्रसित रह सकते हैं। वजन नियंत्रित रखने के लिए इस अवधि में नियमित व्यायाम और सैर करें, साथ ही संतुलित आहार लें।

## इस दौरान याद रखने योग्य बातें

### क्या करें

- अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन करें।
- इंद्रिय जनित सुख के प्रति स्वयं को नियंत्रण में रखें।

### क्या न करें

- अत्यधिक मीठा खाने से बचें।
- बृहस्पतिवार के दिन किसी को भी कपड़े दान अथवा भेंट में ना दें।

### उपाय

- प्रत्येक गुरुवार केसर का तिलक लगाएं।
- पीपल के वृक्ष को गुरुवार और शनिवार को जल चढ़ाएं।

## अक्टूबर 12, 2019 – दिसम्बर 08, 2019

### आर्थिक जीवन

इस समय आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से आपके पास धन आएगा। कुछ बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। हालांकि अचानक आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कुछ आवश्यकता पड़ने पर आपका धन खर्च होगा, इसलिए धन की बचत पर भी ध्यान अवश्य दें।

### करियर

नौकरी व्यापार या व्यवसाय में उत्साहवर्धक परिणाम सामने आएंगे। करियर में की गई मेहनत से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। किसी अच्छे संस्थान में नौकरी लगने के योग हैं। इसके अलावा आपको नए उद्यमों या व्यवसायों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा और यह आपका अच्छा अनुभव भी हो सकता है।

### पारिवारिक जीवन

इस समय आपका पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिजनों के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा और एकजुटता भी दिखाई देगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। इसके अलावा घर वालों के द्वारा आपको किसी प्रकार की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर में भाई-बहनों से आपका अधिक लगाव रहेगा।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में मजबूती आएगी और आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना पाने में सक्षम होंगे। जो लोग



विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन सामान्य परिस्थितियाँ आएंगी हालांकि आपके जीवनसाथी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

### स्वास्थ्य

इस अवधि में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। यदि कोई पुरानी है तो सुधार होगा। अपने आलस्य को त्यागकर शारीरिक व्यायाम और कसरत करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। अपनी सेहत को फिट रखने के लिए अपनी जीवनशैली अनुशासित बनाना होगा।

### इस दौरान याद रखने योग्य बातें

#### क्या करें

- अपनी संवाद शैली को सुधारने का भरपूर प्रयास करें।
- जीवन में आशावादी बने और संघर्षों का डटकर सामना करें।

#### क्या न करें

- अपनी आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग करें।
- दूसरों को आदेश देकर काम कराने की आदत का त्याग करें।

#### उपाय

- शमी की समिधा से हवन करें।
- स्नान करते समय जल में थोड़े काले तिल मिलाकर स्नान करें।

### दिसम्बर 08, 2019 – दिसम्बर 31, 2019

#### आर्थिक जीवन

दशम भाव में स्थित बुध शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए इस अवधि में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति व लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। आप पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना काम करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित और सरकार से जुड़े वरिष्ठ व्यक्तियों से संबंधों में सुधार होगा। इस अवधि में इन लोगों से आपको हर तरह की मदद प्राप्त होगी। आपको वाहन सुख का आनंद मिलेगा। इस अवधि में आप आर्थिक रूप से समृद्ध रहेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि, आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी।

#### करियर

आप सरकारी सहयोग से भी धनार्जन कर सकते हैं या फिर सरकार में आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आप व्यापार के माध्यम से लाभ और यश दोनों कमाएंगे। विदेशी भूमि से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विदेश स्थित किसी कंपनी से बिजनेस या नौकरी का शानदार ऑफर मिल सकता है।

आमदनी अच्छी होगी और इसमें बढ़ोत्तरी होगी। धनवान होने के साथ-साथ आप विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति अर्जति करेंगे।

### पारिवारिक जीवन

घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आप माता-पिता और गुरुजनों का आदर करेंगे एवं उनके आशीर्वाद से आपकी उन्नति होगी। इस अवधि में आप जिस काम को करेंगे उससे शुरुआत में ही सफलता मिलेगी। दशम भाव स्थित बुध के कारण आप न्यायप्रिय और नीति निपुण होंगे। आपके व्यवहार में अंदर धैर्य और विनम्रता आएगी।

### वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं अथवा विचारों के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं वहीं दूसरी ओर प्रेम जीवन के लिए समय सामान्य रहेगा आप अपने साथी से संवाद बनाए रखें धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी।

### स्वास्थ्य

इस अवधि में आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है। नेत्र या त्वचा संबंधी विकार से परेशानी होने की संभावना है, इसलिए इस मामले में कोई लापरवाही ना बरतें। यदि किसी पुरानी बीमारी से पीडित हैं तो समय पर इलाज लेते रहें, वरना बीमारी बढ़ने की संभावना है।

### इस दौरान याद रखने योग्य बातें

#### क्या करें

- कार्यस्थल पर अपने विचारों और कार्य क्षमता का भरपूर प्रयोग करें
- अपने चरित्र को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत रहें।

#### क्या न करें

- अपने काम में बेईमानी बिल्कुल ना करें।
- महिला सहकर्मियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें।

#### उपाय

- हरी सबजियों का दान करें।
- हरे रंग के कपड़े किन्नरों को उपहार स्वरूप भेंट करें।

## 2019 में बन रहे विशेष योग

अब देखते हैं कि इस वर्ष आपकी कुण्डली में कौन-कौन से राज योग और विशेष योग बन रहे हैं। ये योग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं और आगे बढ़कर सफलता व समृद्धि प्राप्त करने में मददगार साबित होते हैं। इस वर्ष निम्नांकित राजयोगों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा—

### 1. गज-केसरी योग

इस साल इस योग के प्रभाव से आप दयालु, परोपकारी, धनवान तथा सम्माननीय होंगे।

### 2. वोशी योग

इस साल इस योग के प्रभाव से आपको लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिलेगी।

### 3. मूसल योग

इस साल इस योग के प्रभाव से आप अचल संपत्ति के स्वामी बनेंगे।

### 4. पर्वत योग:

इस योग के प्रभाव से इस साल आप चट्टान के समान ओजस्वी वक्ता तथा भाग्यशाली होंगे।


### 5. पाराशरी राज योग:

इस योग के प्रभाव से इस साल आपके जीवन में समृद्धि आएगी।

## वर्ष 2019 की शक्ति

जीवन के विभिन्न पहलुओं के दृष्टिकोण से हर वर्ष अपने आप में भिन्न होता है। हम अब तक इन भिन्न-भिन्न पहलुओं पर बात कर चुके हैं। लेकिन जब हम इन विभिन्न आयामों को सम्पूर्णता से देखते हैं तो हमें बड़ी तस्वीर नजर आती है, जिसकी मदद से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। साथ ही यह दृष्टिकोण हमें गहरी अन्तर्दृष्टि देता है और बेहतर समझ प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हमने विशेष सूचकांक बनाया है, जो इन सारे विश्लेषणों का सार लेकर दर्शाता है कि यह वर्ष आपके लिए कितना सफल और संतोषजनक होने वाला है। आइए, देखते हैं यह सूचकांक क्या कहता है

**वर्ष 2019 की शक्ति— 65%**



हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत दी गई जानकारी और भविष्यवाणी के आधार पर आप वर्ष 2019 के अंतर्गत जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर होंगे और शांति पूर्वक अपने जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे। यदि आप हमारे ज्योतिषी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर हमारे ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं।